



रामाज्ञा स्कूल, नोएडा
हिन्दी ओलम्पियाड कार्यपत्रिका 2017-18
कक्षा - नौ

निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए - (प्रश्न 1 से 5)

नवयुग की नूतन वीणा में,
नया राग, नव गान भरो |
उठो धरा के अमर सपूतो,
पुनः नया निर्माण करो |
कली- कली खिल रही इधर,
वह फूल- फूल मुसकाया है |
धरती माँ की आज हो रही,
नई सुनहरी काया है |
सरस्वती का पावन मंदिर,
यह संपत्ति तुम्हारी है |
तुम में से हर बालक इसका,
रक्षक और पुजारी है |
शत- शत दीपक जला ज्ञान के,
नवयुग का आह्वान करो |
उठो धरा के वीर सपूतो,
पुनः नया निर्माण करो |

प्रश्न-1 कवि नवयुवकों को किसके लिए प्रेरित कर रहा है ?

(क) आत्मबलिदान के लिए

(ख) नव निर्माण के लिए

(ग) संन्यास लेने के लिए

(घ) युद्ध के लिए

प्रश्न-2 धरती माँ की काया आज कैसी हो रही है ?

(क) सुनहरी

(ख) रुपहली

(ग) रूपहरी

(घ) धुंधली

प्रश्न-3 कवि किसका आह्वान कर रहा है ?

(क) देवों का

(ख) क्रान्ति का



(ग) नवयुग का

(घ) अमर सपूतों का

प्रश्न-4 कविता में धरती माँ को किसका मंदिर बताया है ?

(क) विष्णु जी का

(ख) शिव जी का

(ग) सरस्वती जी का

(घ) बाबा का

प्रश्न-5 काव्यांश का उचित शीर्षक है ;

(क) अमर सपूत

(ख) धरती माँ

(ग) पुनःनया निर्माण करो

(घ) नूतन काया

प्रश्न-6 'नदी' का पर्यायवाची शब्द है -

(क) सरोवर

(ख) सरिता

(ख) तट

(ग) सागर

प्रश्न-7 'दधि' का तद्भव शब्द है-

(क) छाछ

(ख) दूध

(ख) दही

(घ) घी

प्रश्न-8 'आस्तिक' का विलोम शब्द है-

(क) नास्तिक

(ख) स्वास्तिक

(ग) कार्तिक

(घ) धार्मिक

प्रश्न-9 'जो सब कुछ जनता हो' - वाक्यांश के लिए एक शब्द है-

(क) ज्ञानी

(ख) सर्वज्ञ

(ग) गुरु

(घ) ज्ञाता

प्रश्न-10 'निर्बल' में उपसर्ग है-

(क) नि

(ख) निर

(ग) ई

(घ) बल

प्रश्न-11 'अंक' का अनेकार्थी शब्द है-

(क) गोद

(ख) अंग

(ग) हवा

(घ) पंक

प्रश्न-12 'रंगीला' शब्द में प्रत्यय है-



(क) इला

(ख) आ

(ग) ईला

(घ) ला

प्रश्न-13 'महात्मा' शब्द में समास है-

(क) कर्मधारय

(ख) तत्पुरुष

(ग) द्वंद्व

(घ) द्विगु

प्रश्न-14 निम्न में से शुद्ध शब्द है-

(क) आशीवाद

(ख) आशीर्वाद

(ग) आशर्वाद

(घ) आशिर्वाद

प्रश्न-15 गुणवाचक विशेषण शब्द है-

(क) चालीस छात्र

(ख) लम्बे बाल

(ग) दो लीटर तेल

(घ) कुछ लोग

प्रश्न-16 जातिवाचक संज्ञा है-

(क) बच्चे

(ख) हरा

(ग) मोहन

(घ) भारत

प्रश्न-17 'तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है' में अलंकार है-

(क) यमक

(ख) रूपक

(ग) श्लेष

(घ) अनुप्रास

प्रश्न-18 'कछुआ धीरे- धीरे चलता है' में क्रिया - विशेषण है-

(क) स्थानवाचक

(ख) कालवाचक

(ग) रीतिवाचक

(घ) गुणवाचक

प्रश्न-19 उचित अनुस्वार वाला शब्द है-

(क) ककांल

(ख) संतान

(ग) अतरं

(घ) सतरं

प्रश्न-20 'रमा + ईश' की संधि है-

(क) रामेश

(ख) रामीश

(ग) रमेश

(घ) रमीश

